



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर
हमीरपुर (हि.प्र.)-177005

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR
(H.P.)-177005

[An Institute of National Importance under Ministry of
Education (शिक्षा मंत्रालय)]

OFFICE OF REGISTRAR

सूचना / NOTICE

भारत सरकार के स्थायी निर्देश के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष के 31 जनवरी तक नियंत्रक अधिकारी को पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए अपनी अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना आवश्यक है। इसलिए, इस संस्थान के सभी संकाय और स्टाफ सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय अवधि के भीतर यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पिछले कैलेंडर वर्ष की अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि सतर्कता मंजूरी आदि से इनकार करने से बचा जा सके।

यह सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

As per standing instruction of Govt of India, all the government servants are required to submit their immovable property return for previous /preceding calendar year to the controlling officer by 31st January of the calendar year. Therefore, all the faculty & staff members of this institution are hereby requested to ensure the submission of immovable property return of the preceding calendar year within stipulated time period i.e. from 1st January to 31st January, so as to avoid denial of vigilance clearance etc.

This issues with the prior approval of Competent Authority.


REGISTRAR

No. NIT/HMR/Admn/Property return/337/Vol-5/2026 **4264-89** Dated: **26/05/26**

Copies to the following for information and circulation among their office staff:

1. Director NIT Hamirpur (HP).
2. All Dean's/HoD's / CW (Hostels)/TPO/Estate Officer/ XEN/Medical officer/Librarian/All branch /Section officers/ Deputy Registrar (Finance & Accounts) **to ensure compliance of above directions by staff working under their control.**
3. CVO NIT Hamirpur.
4. Faculty In charge (CC) with a request to upload the notice on Institute Website.



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर

हमीरपुर (हि.प्र.)-177005

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR

HAMIRPUR (H.P.)-177005

[An Institute of National Importance under Ministry of Education (शिक्षा मंत्रालय)]

OFFICE OF THE REGISTRAR

Statement of immovable property as on the 31st December, 2025
(e.g. Lands, House shops, Other Buildings etc.)

1. Name of Officer (in full) and service to which the officer belongs:
2. Present post held:
3. Present Pay, Pay Scale & Grade Pay:

[Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children]

Sl. No.	Description of property (Land house/ Flat/ Shop/ Industrial etc)	Precise location (name of district, division taluk and village in which the property is situated and its distinctive number etc)	Area of Land case Land and building)	Nature of land in case of landed property	Extent of interest	If not in name of public servant in whose name held and his/her relationship, if any to public servant	Date of acquisition	How acquired (whether by purchase mortgage lease, inheritance gift or otherwise) and name with details of person/ persons from whom acquired (address and connection of the Govt. servant if any with the persons concerned) (please see note 1 below and cost of acquisition)	Present value of property (if exact value not known, approx value may be indicated)	Total annual income from the property	Remarks
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
i											
ii											
iii											
iv											
v											

Place:

Dated:

Note:-

- For purpose of column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from your any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this column irrespective term of the lease, where it is short or long term, and the periodicity of the payment of rent.

Signature